SARDA PROTEINS LTD.

and the second second

Date: 14th August, 2024

To, BSE Limited, Phiroze Jecjecbhoy Towers Dalal Street, Mumbai-400 001 (Maharashtra)

(BY BSE LISTING CENTRE)

Ref.: Sarda Proteins Ltd, Scrip Code: 519242, Security ID: SRDAPRT.

Sub.: Newspaper Advertisement – Extract of Un-audited Financial Results for the quarter ended on 30th June, 2024.

Dear Sir/ Ma'am,

Pursuant to Regulation 47 of the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, we are enclosing the extract of Un-audited Financial Results for the quarter ended on 30^{th} June, 2024 published by the company in Business Remedies (Hindi) and in The Indian Express (English) Newspapers on J_{4}^{th} August, 2024.

You are requested to kindly take the same on record.

Thanking you, Yours faithfully, FOR SARDA PROTEINS LTD

For SARDA PROTEINS LTD.

CHIRAG SHANTILAL THUMAR ADDITIONAL DIRECTOR (EXECUTIVE) DIN: 10640822

Encha/a

Reg. Office: B-536-537, Matsya Industrial Area, Alwar- 301030 (Rajasthan) Corp. office: Inside Data Ingenious Global Limited, Station Road, Durgapura, Jaipur-302018 (Rajasthan) Contact No.: +91-7737822222; E Mail: sardaproteins@yahoo.com; Web; www.sardaproteins.com

जयपुर। बुधवार १४ अगस्त, २०२४

बिजुनेस रेमेडीज कॉर्पोरेट वर्ल्ड

बिगब्लॉक कंस्ट्रक्शन लिमिटेड का वित्त वर्ष 2025 की पहली तिमाही में 3.03 करोड़ रुपये का शुद्ध लाभ दर्ज किया, संचालन से राजस्व रु. ५१.५७ करोड़ रहा

बिजनेस रेमेडीज/सूरत। भारत में एयरेटेड ऑटोक्लेव्ड कोंक्रीट (एएसी)

ब्लॉक और पैनल के सबसे बड़े निर्माताओं में से एक बिगब्लॉक कंस्ट्रक्शन लिमिटेड ने जून 2024 को समाप्त वित्त वर्ष 2024-25 की पहली तिमाही के लिए रु. ३.०३ करोड़ (ध्रुद्ध लाभ मार्जिन 5.80%) का समेकित शुद्ध लाभ दर्ज

किया । वित्त वर्ष 2024-25 की पहली तिमाही के दौरान परिचालन से राजस्व रु. 51.57 करोड़ दर्ज किया गया, जो वित्त वर्ष 2023-24 की पहली तिमाही में रु. 54.87 करोड़ के परिचालन राजस्व की तुलना में 6% की सालाना वृद्धि है। वित्त वर्ष 2024-25 की पहली तिमाही के लिए एबिटा रु. 9.65 करोड़ (एबिटा मार्जिन १८.७१%) रहा। वित्त वर्ष 2025 की पहली तिमाही के लिए



सिआम सिमेन्ट बिगब्लॉक कंस्ट्रक्शन टेक्नोलोजीस प्राइवेट लिमिटेड के रु. 2.83 करोड के नुकसान को सेट ओफ करने के बाद दर्ज किया गया है। यह कंपनी में बिगब्लॉक कंस्ट्रक्शन लिमिटेड का ५२% और एससीजी इंटरनेशनल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड का 48% हिस्सा है। कंपनी का इससे शुद्ध लाभ रु. 4.39

ईपीएस रु. 0.62 प्रति शेयर रही। यह

करोड है। 2015 में बनी बिगब्लॉक कंस्ट्रक्शन लिमिटेड एएसी ब्लॉक स्पेस में सबसे बड़ी और एकमात्र लिस्टेड कंपनीओं में से एक है। बिगब्लॉक चार एएसी प्लांट संचालित करता है: एक गुजरात के वलसाड जिले के उमरगांव में, दूसरा महाराष्ट्र के वाडा में, और



अध्यक्ष. बिगब्लॉक कंस्ट्रक्शन लिमिटेड

तीसरा गुजरात के खेडा जिले के कपडवंज में। खेड़ा में नई सुविधा कंपनी का चौथा प्लान्ट है, जो एएसी ब्लॉक और इनोवेटिव एएसी वॉल दोनों के निर्माण के लिए विशिष्ट रूप से सुसज्जित है। इस संयुक्त उद्यम के साथ कंपनी की कुल क्षमता बढ़कर 1.3 मिलियन सीबीएम/वर्ष हो गई है। यह एएसी उद्योग में कार्बन क्रेडिट उत्पन्न करने वाली बहुत कम कंपनियों में से एक है।

बिगब्लॉक कंस्ट्रक्शन लिमिटेड के अध्यक्ष, नारायण साबू ने बताया कि, 'हमारी कंपनी अपने दीर्घकालिक विकास मार्ग में महत्वपूर्ण प्रगति कर रही है और ख़ूद को भारत में एएसी ब्लॉक उद्योग में अग्रणी के रूप में स्थापित कर रही है। कपडवंज और वाडा में प्रोजेक्ट्स निर्धारित समय पर आगे बढ़ने के साथ, हम बाजार को बदलने के लिए तैयार हैं।

हमारे वफादार शेयरधारकों को पुरस्कृत करने और तरलता बढ़ाने के लिए, बोर्ड ने एक बोनस इश्यू की सिफारिश की है जो हमारे इक्विटी आधार को मजबूत करेगा। हम नवाचार, परिचालन दक्षता और स्थिरता पर ध्यान केंद्रित करते हैं. जो सभी हितधारकों के लिए भविष्य में विकास और मुल्य को बढावा देगा।' कंपनी ने 19 ज़ुलाई, 2024 को अपनी बोर्ड बैठक में 1:1 के अनुपात में बोनस इक्विटी शेयर जारी करने की सिफारिश की है. यानी रिकॉर्ड तिथि के अनुसार कंपनी के शेयरधारकों द्वारा रखे गए प्रत्येक मौजूदा इक्विटी शेयर के लिए एक बोनस इक्विटी शेयर जो 29 अगस्त, 2024 को एजीएम में

शेयरधारकों की मंजुरी के अधीन रहेंगे। बोनस इश्यू का उद्देश्य मौजूदा शेयरधारकों को पुरस्कृत करना, तरलता बढ़ाना और ष्टोयरधारक आधार का विस्तार करना है।

बोनस इश्यू के लिए रु. 28.31 करोड़ के फी रिजर्व का उपयोग किया जाएगा। आवश्यक अनुमोदन प्राप्त करने के अधीन, बोनस शेयर बोर्ड अनुमोदन की तारीख से 2 महीने के भीतर यानी 18 सितंबर, 2024 को या उससे पहले जमा किए जाएंगे।

	ई-मेलः info@silgo.in वेबसाइटः www.silgo.in						
	30 जून,2024 को समाप्त ति	माही के अन-अ	अंकेक्षित विर्त्त	र्षेय परिणामों व	का सार		
				(२	रूपये लाखों में)		
क्र.	विवरण	समाप्त तिमाही	समाप्त तिमाही	समाप्त तिमाही	समाप्त वर्ष		
सं.		30.06.2024	31.03.2024	30.06.2023	31.03.2024		
		(अन-अंकेक्षित)	(अंकेक्षित)	(अन-अंकेक्षित)	(अंकेक्षित)		
1.	परिचालनों से कुल आय	1127.80	1018.20	999.69	3508.93		
2.	अवधि के लिए शुद्ध लाभ/(हानि)						
	(कर, असाधारण और/या असाधारण						
	वस्तुओं से पूर्व)	124.24	125.11	107.80	423.40		
З.	कर पूर्व की अवधि के लिए शुद्ध						
	लाभ/(हानि) (असाधारण और/या						
	असाधारण वस्तुओं के पश्चात)	124.24	125.11	107.80	423.40		
4.	कर पश्चात की अवधि के लिए शुद्ध						
	लाभ/(हानि) (असाधारण और/या						
	असाधारण वस्तुओं के पश्चात)	93.38	93.62	80.33	315.23		
5.	अवधि के लिए कुल व्यापक आय						
	(कर के बाद लॉभ/हानि सहित) और						
	अन्य व्यापक आय (कर के पश्चात)	93.38	93.62	80.33	312.49		
6.	इक्विटी शेयर पूंजी	1849.68	1849.68	1027.00	1849.68		
7.	अन्य इक्विटी		-		3558.68		

सिल्गो रिटेल लिमिटेड सीआईएन: L36911RJ2016PLC049036

पंजीकृत कार्यालयः बी-11, महालक्ष्मी नगर, जेएलएन मार्ग, जयपुर राजस्थान-302017

क. उपरोक्त सेबी (सूचीबद्धता दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियम, २०१५ के विनियमन ३३ के तहत स्टॉक एक्सचेंज में दाखिल 30 जून, 2024 को समाप्त तिमाही के लिए अन-अंकेक्षित वित्तीय परिणामों के विस्तृत प्रारूप का सार है। 30 जून, 2024 को समास तिमाही के वित्तीय परिणामों का पूर्ण प्रारूप स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइट www.nseindia.com और कंपनी की वेबसाइट www.silgo.in पर उपलब्ध हैं

0.50

0.50

ख. उपरोक्त परिणामों की समीक्षा लेखापरीक्षा समिति द्वारा की गई है और 13 अगस्त, 2024 को आयोजित उनकी संबंधित बैठकों में निदेशक मंडल द्वारा अनमोदित किया गया है।

-	बिदेशक मंडल के आदेश से और के लि
	सिल्गो रिटेल लिमिटेड
	कृते/-
	नितिन जैन
	(प्रबंध निदेशक)
	DIN: 00935911

0.90

0.90

0.78

0.78

3.00

3.00

वित्त वर्ष 2024 की तीसरी तिमाही में डाबर के परिचालन लाभ में 9.5 फीसदी और राजस्व 7 फीसदी बढ़त दर्ज, वॉल्यूम में भी रही 6 फीसदी ग्रोथ

विज्ञापन खर्च्यों में परिलक्षित

आगे उन्होंने कहा कि '' हम

अपने ग्रामीण पदचिह्न को बढाने

में निवेश कर रहे हैं, जो चालू

वित्त वर्ष में 17,000 गांवों तक

विस्तारित होकर 100,000 से

117,000 तक पहुंच गया है।

हम इस वर्ष को 1.2 लाख गांवों

के ग्रामीण कवरेज के साथ

समाप्त करने की दिशा में काम

कर रहे हैं। वास्तव में, डाबर का

ग्रामीण वितरण उद्योग में सबसे

अधिक रहा है, जिससे हमें एक

विशिष्ट लाभ मिला है और हमारे

ग्रामीण विकास को गति देने में

डाबर के डाइजेस्टिव कारोबार

ने तिमाही के अंत में 15 फीसदी

से अधिक की वृद्धि दर्ज की,

जबकि आयुर्वेदिक एथिकल्स

कैटेगरी में कारोबारी वृद्धिः

मदद मिली है।''

होता है।

बिजनेस रेमेडीज/नई दिल्ली। भारत की अग्रणी विज्ञान-आधारित आयुर्वेद कंपनी डाबर इंडिया लिमिटेड ने 31 दिसंबर. 2023 को समाप्त तिमाही के लिए अपने वित्तीय परिणामों की घोषणा की है।

वित्त वर्ष 2024 की तीसरी तिमाही के वित्तीय प्रदर्शन की

मुख्य बातेंः - 2023-24 की तीसरी तिमाही में परिचालन से समेकित राजस्व 7 फीसदी बढ़कर 3,255 करोड़ रूपये दर्ज किया गया। - 2023-24 की तीसरी तिमाही में समेकित राजस्व में 10 फीसदी लगातार मुद्रा वृद्धि की रिपोर्ट दी गई है। - परिचालन लाभ में 9.5 फीसदी

की वुद्धि दर्ज की गई। - 2023-24 की तीसरी तिमाही में शुद्ध लाभ ८ फीसदी बढ़कर 514.2 करोड़ रूपये। -भारत में एफएमसीजी वॉल्यूम ग्रोथ 6 फीसदी रही, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में 11.7 फीसदी स्थिर

मुद्रा वृद्धि दर्ज की गई।



पोर्टफोलियो में बाजार हिस्सेदारी में वृद्धि के साथ श्रेणी-अग्रणी वृद्धि दर्ज की। सर्दियों की शुरुआत में देरी से हेल्थकेयर और विंटर पोर्टफोलियो पर थोड़ा असर पड़ने के बावजूद डाबर के भारतीय कारोबार ने 6 फीसदी की वॉल्यूम ग्रोथ के साथ तीसरी तिमाही समाप्त की।

तिमाही के लिए परिचालन लाभ में 9.5 फीसबी का उछाल आया। तिमाही के लिए समेकित शुद्ध लाभ ८ फीसदी बढ़कर 514.2 करोड़ रूपये हो गया, जो एक साल पहले 475.9 करोड़ रुपये था।

तिमाही के लिए विज्ञापन खर्च में समेकित व्यवसाय में 36 फीसदी और स्टैंडअलोन व्यवसाय में 30 फीसदी की वृद्धि

200 आधार अंक अधिक बढी। दक्षिण भारत में निर्माण इकाई हमने प्रतिस्पर्धी मात्रा में वृद्धि को बढ़ावा देने के लिए अपने ब्रांडों स्थापित करेगी डाबर के पीछे निवेश भी बढ़ाया है, जो डाबर इंडिया लिमिटेड के निदेशक मंडल ने दक्षिण भारत में एक नई तिमाही के दौरान हमारे उच्च

विनिर्माण सुविधा स्थापित करने के लिए 135 करोड़ रूपये के निवेश को मंजूरी दे दी। यह नई इकाई डाबर के आयुर्वेदिक हेल्थकेयर, पर्सनल केयर और होम केयर उत्पादों जैसे डाबर हनी, डाबर रेड पेस्ट और ओडोनिल एयर फ्रेशनर का निर्माण करेगी। डाबर इंडिया लिमिटेड के मुख्य कार्यकारी अधिकारी मोहित मल्होत्रा ने कहा कि ''हमारा कारोबार दक्षिण भारत में बढ़ गया है और जो कि डाबर के घरेलू कारोबार का लगभग 18 से 20 प्रतिशत हिस्सा है। दक्षिण भारत का योगदान बढ़ने के साथ, हमने स्थानीय मांग को बेहतर ढंग से पूरा करने के लिए वहां एक नई विनिर्माण सुविधा स्थापित करने का निर्णय लिया है। बोर्ड ने आज इस ग्रीनफील्ड सुविधा की स्थापना के लिए 135 करोड़ रूपये के निवेश को मंजूरी दे दी।''

साथ, डाबर ने पूरे पोर्टफोलियो में बाजार हिस्सेदारी में बढ़त दर्ज की, जिससे हेयर ऑयल्स बाजार हिस्सेदारी में 140 आधार अंकों का सुधार हुआ। डाबर ने एयर फ्रेशनर बाजार हिस्सेदारी में 184 की बढ़त और च्यवनप्राश बाजार हिस्सेदारी में 151bps की बढ़त दर्ज की।

अंतरराष्ट्रीय व्यापार डाबर के अंतर्राष्ट्रीय व्यवसाय ने स्थिर मुद्रा के संदर्भ में 11.7 फीसदी की वृद्धि दर्ज की।

नाइजीरिया का कारोबार 52 फीसदी बढा. जबकि तुर्की का कारोबार ४४ फीसदी बढ़ा और मिस का कारोबार 43 फीसदी की वृद्धि के साथ समाप्त हुआ।

क्र.

2.

5.

6.

7.

टिप्पणियाँः

स्थान चित्तौडगढ

Date: August 13, 2024

Place: Jodhpu

डक्विटी शेयर पंजी

सारदा प्रोटीन्स लिमिटेड क्षेत्र, जुलवर-301030 (राजस्थान) फोन : +91 7737822222

आय प्रति शेयर (१०/- रूपए प्रति)

आधारभूत तनुकृत

स्थानः जयपुर देनांकः 13.08.2024

रोड़, दुर्गापुरा, जयपुर-302018, राज

विवरण	समाप्त तिमाही 30.06.2024	पूर्ववर्ती समाप्त तिमाही 31.03.2024	पिछले वर्ष समाप्त तिमाही 30.06.2023	पिछला वर्ष समाप्त 31.03.202
	गैर अंकेश्वित	अंकेश्वित	गैर अंकेक्षित	अंकेशित
चालन से कुल आब	-	10.11	27.67	146.11
त्वधि के लिए कर से पहले शुद्ध लाभ/ (हानि)(असाधारण और असाधारण स्त्रओं से पहले)	(8.01)	1.96	(0.25)	1.89
वधि के लिए कर से पहले शुद्ध लाभ/ हानि (असाधारण और असाधारण स्तओं के बाद)	(8.01)	1.96	(0.25)	1.89
वधि के लिए कर के बाद शुद्ध लाभ/ हानि (असाधारण और असाधारण स्तुओं के बाद)	(8.01)	2.01	(0.25)	1.94
वधि के लिए कुल व्यापक आय (अबधि के लिए व्यापक लाभ(हानि) और अन्य गणक आय) कर के बाद	(8.01)	2.01	(0.25)	1.94
गतान किया हुआ इक्विटी शेयर पूंजी एंव इक्विटी शेयर (अंकित मुल्य 10/- रु प्रति का)	172.59	172.59	172.59	172.59
गरक्षितियाँ (पुनःमूल्यांकन आरक्षितियाँ छोड़कर) पिछले वर्ष की ऑडिटेड लेंस शीट अनुसार		P.	- 8 - I	1.1
गय प्रति शेयर (अंकित मूल्य 10/- क प्रति का)				
1) मूल	(0.46)	0.12	(0.01)	0.11
2) तरल यान दे: 1. उपरोक्त 30.06.2024 को समाप्त तिमाही के विस्तुत अन-ऑडिटेड किये गए वित्तीय कटीकरण आवरक्तवाएँ) विनियम, 2015 के तहत स्टॉक एक्सचेंज के साथ दायर किया गया है, :	(0.46)	0.12	(0.01)	0.11

ईनाणी मार्बल्स एंड इंडस्ट्रीज लिमिटेड CIN No. : L14101RJ1994PLC008930

पंजीकत कार्यालयः आराजी नंबर 1312, उदयपुर-भीलवाड़ा राजमार्ग, माताजी की पांडोली के पास चित्तौड़गढ़ (राज.) 312001, भारत ई-मेल: inanimarble@gmail.com, दूरभाष नंबर: 0091-1472-240111

30 जुन 2024 को समाप्त तिमाही के अन-अंकेक्षित वित्तीय परिणामों का विवरण

(ईपीएस को छोड़कर रूपए लाखों में)								
. सं.	विवरण	समाप्त तिमाही समाप्त वष						
		30.06.2024	31.3.2024	30.06.2023	31.03.2024			
		(अन-अंकेक्षित)	(अंकेक्षित)	(अन-अंकेक्षित)	(अंकेक्षित)			
	परिचालन से कुल आय	1,322.76	1853.39	1,440.76	5,869.83			
	अवधि के लिए शुद्ध लाभ / (हानि) (कर, असाधारण और/या							
	असाधारण वस्तुओं से पूर्व)	99.52	167.41	(76.63)	197.96			
	कर से पहले की अवधि के लिए शुद्ध लाभ / (हानि) (असाधारण							
	और/या असाधारण वस्तुओं के बाद)	99.52	167.41	(76.63)	197.96			
	कर के बाद की अवधि के लिए शुद्ध लाभ / (हानि) (असाधारण							
	और/या असाधारण वस्तुओं के बाद)	76.05	126.88	(76.63)	157.43			

डाबर इंडिया लिमिटेड ने 2023-24 की तीसरी तिमाही को परिचालन से राजस्व में 7 फीसदी की वृद्धि के साथ 3255 करोड रूपये के साथ समाप्त किया, जो घरेलू और व्यक्ति गत देखभाल और खाद्य और पेय पदार्थ दोनों व्यवसायों के स्थिर प्रदर्शन से प्रेरित था। 2022-23 की तीसरी तिमाही में राजस्व 3.043.2 करोड रूपये रहा था। स्थिर सुद्रा के आधार पर तीसरी तिमाही में राजस्व वृद्धि 10 फीसदी रही।

अपने उपभोक्ता-केंद्रित उत्पाद पोर्टफोलियो. बेहतर ब्रांड संचार और बाजार-द-मार्केट निष्पादन में उत्कृष्टता के बल पर, डाबर ने अपने विकास की गति को बनाए रखना जारी रखा और पूरे

दर्ज की गई। डाबर इंडिया लिमिटेड के मुख्य कार्यकारी अधिकारी मोहित मल्होत्रा ने कहा कि '' हम अपने पोर्टफोलियो में टिकाऊ, लाभदायक विकास को चलाने के लिए बेहतर उत्पाद वितरण और रचनात्मक व्यवधान पर ध्यान देने के साथ एक चुस्त और जवाबदेह संगठन संरचना के प्रबंधन की अपनी रणनीतियों पर गहनता से ध्यान केंद्रित करते हैं। उपभोक्ता भावनाओं में उछाल के साथ सुद्रास्फीति में नरमी और ग्रामीण भारत में वितरण पदचिह्न विस्तार में हमारे केंद्रित निवेश से डाबर के लिए भीतरी इलाकों से मांग वापस लौटने में मदद मिली।

कारोबार तीसरी तिमाही में लगभग ७ फीसदी बढा। डाबर के शैम्पू और पोस्ट-वॉश श्रेणी में 11 फीसदी से अधिक की वुद्धि दर्ज की गई। दुथपेस्ट व्यवसाय ने तिमाही के अंत में उद्योग में 8 फीसदी से अधिक की बढत हासिल की, जिसे दूथपेस्ट वॉल्यूम में 5 फीसदी की वृद्धि का समर्थन मिला। होम केयर व्यवसाय ने 7 फीसदी की वृद्धि दर्ज की, जबकि पेय पदार्थ व्यवसाय विकास पथ पर लौट आया और 7 फीसदी की वृद्धि के साथ तिमाही समाप्त हुई। बादशाह समेत कंपनी के फूड्स कारोबार ने तिमाही के अंत में 22 फीसदी की वृद्धि दर्ज की। डाबर की ग्रामीण मांग शहरी से व्यवसाय मजबूत रहने के

S. No. 1 2 3 4 5 6 7	Particulars Total Income from Operations Net Profit (Loss) for the period from ordinary activities (before Tax, Exceptional and/or Extraordinary items) Net Profit (Loss) for the period before tax (after Exceptional and/or Extraordinary items) Net Profit /(Loss) for the period after tax (after Exceptional and/or Extraordinary items) Total Comprehensive Income for the period (Comprising Profit /(Loss) for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax)		Ended 30.06.2023 Unaudited 2547.68 32.30 32.30 32.30 32.30 32.30
1 2 3 4 5 6	Net Profit / (Loss) for the period from ordinary activities (before Tax, Exceptional and/or Extraordinary items) Net Profit / (Loss) for the period before tax (after Exceptional and/or Extraordinary items) Net Profit / (Loss) for the period after tax (after Exceptional and/or Extraordinary items) Tofal Comprehensive Income for the period (Comprising Profit / (Loss) for the period (after tax) and Other	Unaudited 2448.41 8.52 8.52 8.52 8.52	Unaudited 2547.68 32.30 32.30 32.30
2 3 4 5 6	Net Profit / (Loss) for the period from ordinary activities (before Tax, Exceptional and/or Extraordinary items) Net Profit / (Loss) for the period before tax (after Exceptional and/or Extraordinary items) Net Profit / (Loss) for the period after tax (after Exceptional and/or Extraordinary items) Tofal Comprehensive Income for the period (Comprising Profit / (Loss) for the period (after tax) and Other	2448.41 8.52 8.52 8.52 8.52	2547.68 32.30 32.30 32.30
2 3 4 5 6	Net Profit / (Loss) for the period from ordinary activities (before Tax, Exceptional and/or Extraordinary items) Net Profit / (Loss) for the period before tax (after Exceptional and/or Extraordinary items) Net Profit / (Loss) for the period after tax (after Exceptional and/or Extraordinary items) Tofal Comprehensive Income for the period (Comprising Profit / (Loss) for the period (after tax) and Other	8.52 8.52 8.52	32.30 32.30 32.30
3 4 5 6	(before Tax, Exceptional and/or Extraordinary items) Net Profit (Loss) for the period before tax (after Exceptional and/or Extraordinary items) Net Profit (Loss) for the period after tax (after Exceptional and/or Extraordinary items) Tofal Comprehensive Income for the period (Comprising Profit (Loss) for the period (after tax) and Other	8.52 8.52	32.30 32.30
4 5 6	ant/or Extraordinary items) Net Profit / (Loss) for the period after tax (after Exceptional and/or Extraordinary items) Total Comprehensive Income for the period [Comprising Profit / (Loss) for the period (after tax) and Other	8.52	32.30
5	and/or Extraordinary items) Total Comprehensive Income for the period (Comprising Profit / (Loss) for the period (after tax) and Other		
6	Profit / (Loss) for the period (after tax) and Other	8.52	32.30
		1.5.5.4	
7	Equity Share Capital(Face Value Rs 10/-)	449.99	449.99
	Earnings Per Share -		
	1.Basic:	0.19	0.72
	2.Diluted	0.19	0.72
the quitte S of the (www Resu appro 3. The there inform Acco	is: 1. The above is an extract of the datailed (ormat of Unaud uarter ended 30th June, 2024, filed with the Stock Exchange (EBI (Listing and Other Disclosure Requirements) Regulative a Quarterly Financial Results are available on the website to been down and Company's website(www.rajtube.com) its for Quarter ended 30th June 2024 have been reviewed oved by the board of Directors at their respective meeting here. Company is engeged in the business of manufacturing is only one reportable segment, the company has i mation, 4. These financial results have been prepared in uniting Standards (Ind AS) prescribed under Section 133 of with the relevant Rules thereunder and in ferms of Regulation.	es under Reg ons, 2015. The s of the Store 2. The above 1 by audit co ald on 13th A of ERW Ste not given a accordance the Compan	pulation 33 c the full forma & Exchange Unaudite mmittee an- August 2024 el Tubes A ny segmen with indiai hies Act 2013
obliga consi Place	ations & Disclosure Requirements) Regulations 2015. 5. Pre		xation will b alf of Board nd Jain

0/-)	449.99	449.99	
	0.19	0.72	
	0.19	0.72	
th the Stock Exch equirements) Regralable on the well site(www.rajiube.) 4 have been revia respective meeting respective meetin	ulations, 2015. The bsites of the Stoc com) 2. The abov swed by audit com ing held on 13th A ming of ERW Stee las not given at	the full format. & Exchange e Unaudited mmittee and logust, 2024. el Tubes As ny segment	VPRPL

DIN: 01504391

पिछले लेखा वर्ष की बैलेंस शीट के अनुसार पुनर्मूल्यांकन रिजर्व को 4,951.44 छोड़कर रिजर्व प्रति शेयर आय (रु. २/- प्रत्येक) (जारी और बंद परिचालन के लिए 0.41 0.68 (0.41) 0.85 (क) मूल (ख) तनुकृत (0.41) 0.85 0.41 0.68 उपरोक्त सेबी के (सूचीबद्धता दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियम, 2015 के विनियमन 33 के अनुपालन में बीएसई लिमिटेड के साथ दायर जैमासिक/वार्षिक वित्तीय परिणामों के विस्तृत प्रारूप का सर है। त्रैमासिक वित्तीय परिणामों का संपूर्ण प्रारूप स्टॉक एक्सरोंज की वेबसाइट www.bseindia.com और कंपनी की वेबसाइट www.inanimarbles.com पर उपलब्ध है ईनाणी मार्बल्स एंड इंडस्टीज लिमिटेड के लिप दिनांक: 12.08.2024

94.65

372.00

127.65

372.00

अवधि के लिए कुल व्यापक आय (कर के बाद की अवधि के लिए

लाभ/(हानि) और अन्य व्यापक आय (कर के बाद) शामिल)

कृते/ कैप्टन सुरेश कुमार ईनाणी प्रबंध निदेशक (DIN:00219702)

(71.34)

372.00

172.36

372.00



Village Kondivita, Mathuradas Vasanji Road, Near Chakala Metro Station, Andheri (East), Mumbai - 400059, Maharashtra, India; Tel: +91 22 40164020; Website: https://www.vprp.co.in;

Corporate Identity Number: L45203MH2013PLC243252

Statement of Unaudited Standalone Financial Results for the Quarter ended June 30, 2024

(All amounts are in Rupees Millions, unless otherwise state

	For the Quarter end	led	Year ended
June 30, 2024	March 31, 2024	June 30, 2023	March 31,2024
(Unaudited)	(Audited)	(Unaudited)	(Audited)
2,565.63	6,572.06	2,781.70	14,738.65
196.94	907.02	219.45	1,645.18
196.94	907.02	219.45	1,645.18
147.63	671.34	164.36	1,221.85
147.65	668.21	163.43	1,222.15
1,246.44	1,246.44	934.44	1,246.44
			5,964.20
1.18	5.39	1.76	10.95
	June 30, 2024 (Unaudited) 2,565.63 196.94 196.94 147.63 147.65 1,246.44	June 30, 2024 (Unaudited) March 31, 2024 (Audited) 2,565.63 6,572.06 196.94 907.02 196.94 907.02 147.63 671.34 147.65 668.21 1,246.44 1,246.44	June 30, 2024 (Unaudited) March 31, 2024 (Audited) June 30, 2023 (Unaudited) 2,565.63 6,572.06 2,781.70 196.94 907.02 219.45 196.94 907.02 219.45 147.63 671.34 164.36 147.65 668.21 163.43 1,246.44 1,246.44 934.44

The above is an extract of the detailed format of Unaudited Financial Results of the Quarter ended June 30.2024 filed with the Stock Exchanges on August 13, 2024 under Regulation 33 of SEBI (listing obligations and other disclosure requirements) Regulations, 2015. The full format of the aforementioned financial results are available on the stock exchange websites (www.nseindia.com & www.bseindia.com) and the Company's website (www.vprp.co.in)

For and on Behalf of Board of
VISHNU PRAKASH R PUNGLIA LIMITED
SD/-
Manohar Lal Punglia
Managing Director
(DIN:02161961)
(DIN . 02101901)

Place : Jaipur Date: 13th August, 2024

दिनांक

स्थान :

मोतीसन्स ज्वैलर्स लिमिटेड द्वारा धन जुटाने पर विचार

बिजनेस रेमेडीज/इंदौर। मोतीसन्स ज्यैलर्स लिमिटेड (बीएसई: 544053, एनएसई: MOTI-



SONS), जो कि ज्वैलरी उद्योग में एक अग्रणी है, ने घोषणा की है कि कंपनी के बोर्ड धन ज़ूटाने के प्रस्ताव पर विचार करेगा। इस धन का उपयोग कंपनी के वित्तीय संसाधनों को बढ़ाने के लिए किया जाएगा। धन ज़ूटाने के लिए इक्विटी शेयर, परिवर्तनीय साधनों या अन्य किसी भी अनुमत माध्यम से एक या अधिक किश्तों में धन

जुटाया जा सकता है, जैसा कि बोर्ड द्वारा निर्णय लिया जाएगा। यह सब आवश्यक नियामक/वैधानिक रवीकृतियों और कंपनी के शेयरधारकों की मंजूरी के अधीन होगा। इससे पहले, कंपनी ने 30 जून, 2024 को समाप्त तिमाही के लिए अपनी आय की रिपोर्ट जारी की थी।

कंपनी का ऑपरेशन से राजस्व ८८.७१ करोड़ रूपये रहा। ऑपरेटिंग लाभ १०.७१ करोड़ रूपये रहा और शुद्ध लाभ ६.३३ करोड़ रुपये रहा। प्रति शेयर ईपीएस ०.६४ रुपये रहा।मोतीसन्स ज्वैलर्स लिमिटेड ज्वैलरी रिटेल उद्योग में एक अग्रणी है, जिसका दो दशकों से अधिक का समृद्ध इतिहास है। कंपनी सोने, हीरे, कुंदन और अन्य कीमती और अर्द्ध कीमती पत्थरों की एक विविध रेंज में ज्वैलरी की बिी में विशेषज्ञता रखती है। इसके अलावा, कंपनी मोती, चांदी, प्लैटिनम और अन्य धातुओं के साथ-साथ सोने और चांदी के सिक्के, बर्तन और अन्य कलाकृतियों जैसी अन्य विभिन्न प्रकार की उत्पाबों की पेशकश करती है। लगभग 25 वर्षों के अच्छे ट्रैक रिकॉर्ड के साथ, मोतीसन्स ज्वैलर्स ने महत्वपूर्ण प्रदर्शन किया है और अपने ब्रांड 'पार्टीवियर, ज्वेलमोतीसन्स' को दृढ़ता से स्थापित किया है। कंपनी एंटीक-फिनिश्ड, मोती, कुंदन और हीरे के आभूषणों सहित एक विस्तृत रेंज की पेशकश करने पर गर्व करती है।

बैद फिनसर्व लिमिटेड पंजीकत कार्यालय : बैद हाउस, द्वितीय तल, 1-तारा नगर, अजमेर रोड, जयपुर-06, फांन : 9214018855 finance@baidgroup.in • W. : www.baidfinserv.com • CIN: L65910RJ1991PLC006391

30 जून, 2024 को समाप्त तिपाही के लिए स्टैण्डएलॉन गैर अंकेंक्षित वित्तीय परिणामों के विवरणों का सार भारतीय लेखा मानको (आईएनडी-एएस) के अनुपालन में तैयार 🔰 (प्रतिक्षंत्र डाटा को जेड़कर ६ लाखों में)

E and the second se	समाप्त	समाप्त तिमाही	
विवरण	30 चून 2024	30 जून 2023	31 पार्च 2024
the second secon	(गैंग अंकेक्षित)	(गैर अंकडित)	(अंकोक्षित)
. परिवालनाँ से कुल आय	1888.02	1823.72	6591.55
. कर के बाद शुद्ध लाभ /(हानि) (कर, असाधारण और / या असाधारण वस्तुओं से पहले) . कर के बाद शुद्ध लाभ /(हानि)	414.15	749.67	1809.71
(कर, असाधारण और/ या असाधारण वस्तुओं से बाद) कर के बाद की अवधि के लिए शुद्ध लाभ/(हानि)	414.15	749.67	1809.71
(असाधारण और /वा असाधारण वस्तुएं) अवधि के लिए कुल व्यापक आय एवं अन्य व्यापक आय	311.89	561.01	1292.40
(कर के बाद) के लिए लाभ/हानि	312.10	561.59	1293.23
. समता अंश पूंजी (ऑकित मूल्य रु. 2/- प्रति अंश) . रिज़र्ब (पूर्व लेखा वर्ष के तुलन पत्र के अनुसार	2401.37	2401.37	2401.37
पूनमूल्याकन रिजर्व के अतिरिक्त) आय प्रति शेवर (अकित यूल्य क. 2/- प्रति अंश)	-	~	14276.87
(संचालन जारी रखने और बंद करने के लिए) 1 मुल 2 तरल	0,26	0.47	1.08

टेप्पणी : (1) 30 जन, 2024 को समाप्त तिमाही के लिए गैर अंकेक्षित वित्तीय परिणामों के विस्तृत प्रारूप का सार है जिसव मंगलवार 13 अगस्त, 2024 को आयोजित संबंधित मीटिंग में अंकेक्षण समिति ने उपरोक्त परिणामों की समीक्षा की है ए नेदेशक मण्डल ने उपरोक्त वरिणामों को मंजूरी दे दी है। सोविधिक लेखा परीक्षकों द्वारा सीमित समीक्षा और संब सूचीकरण दायित्व एवं प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियम, 2015 के विनियम 33 के तहत स्टॉक एक्सचेजों के साथ दायर किया गया। समाप्त तिमाही के गैर अंकेक्षित विलीय परिणामों का संपूर्ण प्रारूप स्टॉक एक्सचेंजों की वेबसाइ www.bseindia.com तथा www.nseindia.com और कम्पनी की वेबसाईट www.baidfinserv.com पर उपल ई H(2) कंपनी के गैर अंकेश्वित स्टेण्डअलोन किलीय परिणाम भारतीय लेखा मानकों (आईएनडी-एएस) के अनुसार क अधिनियम, 2013 की धारा 133 के तहत निर्धारित किए गए है। वास्ते बैद फिनसर्व लिमिटे

हस्ता./ अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक (DIN-00009897)

पना लाल बे

: 13 अगस्त, 2024	
जवपर	



WWW.INDIANEXPRESS.COM

THE INDIAN EXPRESS, WEDNESDAY, AUGUST 14, 2024

SARDA PROTEINS LTD al Area, Alwar - 301030 (Rajasthan) tation Road. Durgapura, Jaipur-302018 (Rajasthan) Regd. Office B-536-537, Ma

Corporate office: Inside Da CIN: L15142RJ1991PLC006353 | Pho ide Data lı n i Website: w

STATEMENT OF UN-AUDITED FINANCIAL RESULTS	FOR THE QUA	RTER ENDED) ON 30™ JUNE, 20	
				(In Lakhs
Particulars	Three Months ended on 30.06.2024	Preceding Three months ended on 31.03.2024	Corresponding three months ended on 30.06.2023 in the previous year	Previous Year Ended 31.03.2024
	Un-Audited	Audited	Un-Audited	Audited
Total Income from operations	-	10.11	27.67	146.11
Net profit/(Loss) for the period (before tax, exceptional and extraordinary items)	(8.01)	1.96	(0.25)	1.89
Net profit/(Loss) for the period before tax (after exceptional and extraordinary items)	(8.01)	1.96	(0.25)	1.89
Net profit/(Loss) for the period after tax (after exceptional and extraordinary items)	(8.01)	2.01	(0.25)	1.94
Total Comprehensive Income for the period (Comprising Profit (Loss) and other comprehensive income for the period) after tax	(8.01)	2.01	(0.25)	1.94
Paid Up Equity Share Capital, Equity Shares of Face Value Rs. 10 each	172.59	172.59	172.59	172.59
Reserves (excluding Revaluation Reserve) as shown in the Audited Balance Sheet of the previous year	-	-	•	-
Earnings per Equity Share (of Face Value Rs. 10 each)				
(1) Basic	(0.46)	0.12	(0.01)	0.11
(2) Diluted	(0.46)	0.12	(0.01)	0.11

Note: a) The above is an extract of the detailed Un-audited Financial Results for the quarter ended on 30th June, 2024 filed with the Stock Exchange under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The detailed format of Un-audited Financial Results for the quarter ended on 30th June, 2024 is available on Company's website (www.sardaproteins.com) and on Stock Exchange's website (www.bseindia.com). b) The above results were reviewed by the Audit Committee at their meeting held on 10th August, 2024 and have been approved by the Board of Directors at their meeting held on 12th August, 2024. The Statutory auditors have conducted a limited review of the above Cun-audited Financial Results and the same along with limited review of the stock Exchange. c) This statement has been prepared in accordance with the Companies (Indian Accounting Standards) Rules, 2015 (IND-AS), prescribed under section 133 of the Companies Act, 2013, and other recognized accounting practices and policies to the extent applicable. For Sarda Proteins Lture able. For Sarda Proteins Ltd Sd/- Chirag Shantilal Thumar Additional Director (Executive) DIN: 10640822

Date: 12/08/2024 Place: Jaipur

Kogta Financial (India) Limited

Kogta Financial (India) Limited CIN No. U67120R/1996PL.0011406, Corporate Office: S-1 Gopalbari, Near Ajmer Pulia, Opp. Metro Pillar No. 143, Jaipur - 302001, Rajasthan, India. Tel.: +91 141 6767067, Registered Office: Kogta House, Azad Mohalla, Bijainagar – 305624, Rajasthan, India | Email: info@kogta.in | www.kogta.in

APPENDIX IV [See Rule 8(1)] POSSESSION NOTICE Whereas, The undersigned being the Authorized Officer of the Kogta Financial (India) Limited, under the Securitization and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 and in exercise of Powers conferred under Enforcement of security interest AC, 2002 and in exercise of Powers conterred under Section 13 (12) read with Rule 3 of the Security Interest (Enforcement) Rules, 2002, issued a demand notice dated 15/07/2023 calling upon the Borrowers / Guarantor/Mortgagor) RN. CHOTU LAL KHATIK S/O LADU LAL KHATIK (Applicant/Mortgagor), SHIV SHAKTI WELDING WORKS THROUGH PROPRIETOR MR. CHOTU LAL KHATIK, MRS. VIMALA DEVI W/O CHOTU KHATIK (Co-Applicant) MR, SHANKAR LAL KHATIK S/O NATHU KHATIK (Guarantor) Loa Number 0000108532/R1 to repay the amount mentioned in the notice being Rs. 20,13,169/- (Rupees Twenty Lakh Thirteen Thousand One Hundred Sixty-Nine Only) as on 15/07/2023 payable with further interest and other legal charges until payment in full within 60 days from the date of notice/date of receipt of the said notice. The borrower/ mortgagor having failed to repay the amount, notice is hereby given to the borrower/ mortgagor naving failed to repay the amount, notice is never given to the borrower/ mortgagor and the public in general that the undersigned has taken possession of the property described herein below in exercise of powers conferred on him/her under Section 13(4) of the said Act read with Rule 8 of the said conferred on him/her under Section 13(4) of the said Act read with Rule 8 of the said Rules on this 10th of Aug. of the year 2024. The borrower's attention is invited to provisions of sub-section (8) of section 13 of the Act, in respect of time available, to redeem the secured assets. The borrower/mortgagor in particular and the public in general is hereby cautioned not to deal with the property and any dealings with the property will be subject to the charge of the Kogta Financial (India) Limited for an amount of being Rs. 20,13,169/- (Rupees Twenty Lakh Thirteen Thousand One Hundred Sbtty Nine Only) as on 15/07/2023 payable with further Interest and other legal charges and interest & expenses thereon until full payment

Description of Immovable Property All That Piece and Parcel of Patta No. 1 Village Maal Ka Kheda, Tehsil Mandalgarh

Dist- Bhilwada Owned by Mr. Chotu Lal Khatik Admeasuring – 2240 Sq. Feet East by Aam Rasta, West by: Aam Rasta, North by: Fori Devi w/o Suwalal Khatik, South by Manju Devi w/o Kalu Khatik Authorised Office Date: 10-08-2024, Place: Maal ka Kheda, Bhilwara Kogta Financial (India) Limite

SANGAM FINSERV LIMITED (Formerly known as Suchitra Finance & Trading Co. Ltd.)

Regd.Off : B - 10, 2ND FLOOR, S K PLAZA, PUR ROAD, BHILWARA - 311001, RAJASTHAN

Corporate Office: B/306-309, Dynasty Business Park Opp. Sangam Cinema, A. K. Road, Andheri (e) Mumbai, MH 400059 CIN: L65910RJ1981PLC079945, Tel No.:01482-796146, Email Id: suchitra@sangamgroup.com, www.sftc.co.in Extract of Unaudited Standalone Financial Results for the quarter ended June 30, 2024

(Rs in Lass)							
		3	3 months ended				
S.	Particulars	30-06-24	30-06-23	31-03-24	31-03-24		
No.		Unaudited	Unaudited	Audited	Audited		
1	Total Income From Operations	454.69	408.23	470.17	1,857.82		
2	Net Profit (before tax, and Exceptional and/or Extraordinary items)	291.70	252.51	174.28	1,059.61		
3	Net Profit before tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	291.70	252.51	174.28	1,059.61		
4	Net Profit after tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	219.38	183.22	127.84	790.35		
5	Total Comprehensive Income for the period [Comprising Profit / (Loss) for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax)]	220.18	183.22	129.24	786.50		
6 8	Paid up Equity Share Capital Other Equity	932.25	932.25	932.25	932.25		
7	Earnings Per Share (Before and after extraordinary item) (of Rs. 10/- each) (not annualised)				11,781		
	1. Basic 2. Diluted	2.35 2.35	2.02* 2.02*	1.37 1.37	8.48 8.48		
Note: 1. The above is an extract of the detailed format of quarterly ended Unaudited Financial Results filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing and Other Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the quarterly Unaudited Financial Results are available on the Stock Exchange websites: www.bseindia.com and also on the website of the Company at www.sftc.co.in.							
	FOR SANGAM FINSERV LIMITED						

Vinod Kumar Sodani DIRECTOR DIN: 00403740 Dated : 13-08-2024 Place : Bhilwara

AU SMALL FINANCE BANK LIMITED (A SCHEDULED COMMERCIAL BANK)

Registered office :- 19-A, Dhuleswar Garden, Ajmer Road, Jaipur-302001, Rajasthan(India) CIN L36911RJ1996PLC011381

APPENDIX-IV-A [See proviso to rule 8(6)] Sale notice for sale of immovable properties

E-auction Sale Notice for Sale of Immovable Assets under the Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 read with proviso to Rule 8 (6) of the Security Interest (Enforcement) Rules, 2002. Notice is hereby given to the public in general and in particular to the Borrower (s)/Co-Borrower (s)/Mortgagor (s) and Guarantor (s) that the below described immovable properties mortgaged to the Secured Creditor, the constructive/physical possession of which has been taken by the Authorised Officer of AU Small Finance Bank Limited (A Scheduled Commercial Bank), the same shall be referred herein after as AUSFB. The Secured Assets will be sold on "As is whare is", and "Whatever there is" basis through E-Auction for recovery of amount mentioned in the table below along with further interest, cost, charges and expenses being due to AUSFB viz. Secured Creditor.

Loan A/c Number / Name of Borrowers/ Co-Borrowers/	Date & Amount of 13(2) Demand	Date of Posse- ssion	Description of Property	Reserve Price For Property	Earnest Money For Property	Date & Time of E-Auction	Date & Time of Bid Sub- mission	E-Auction Place of Tender Submission	Contact Person and property	Loan A/c Number / Name of Borrowers/ Co-Borrowers/	Date & Amount of 13(2) Demand	Date of Posse- ssion	Description of Property	Reserve Price For Property	Earnest Money For Property	Date & Time of E-Auction	Date of Bid Sub- mission	E-Auction Place of Tender Submission	Contact Person and property
Suarantors/Mortgagers Vc No.: 9001060100166651 Sopal Lal Mali S/o Soram Mali (Borrower & Mortgagor), Smt. Durga Devi Mali W/o Gopal Lal Mali (Co-Borrower) Suarantor: Satyanarayan Mali S/o Ladu Mali	Notice 04-May-17 Rs. 385444/- Rs.Three Lac Eighty Five Thousand Four Hundred Fourty Four Only As on 29- Apr-17	21-Feb- 18	Patta No.83, Mishal No.84, Gram - Mali Khera, Gram Panchayat - Kotri, Panchayat Samiti - Kotri, Distt Bhilwara, Rajasthan Admeasuring, 2808 Sq. Ft.	Rs. 380000/- Rs. Three Lakh Eighty Thousand Only.	Rs. 38000/- Rs. Thirty Eight Thousan d Only.	19-Sep- 24 2.00 PM to 4.00 PM with unlimited extension of 5 minutes	On or Before 17-Sep- 24	Au Small Finance Bank Ltd., Branch Address : -3Rd Floor Shree Sudharshan Complex, Near Chand Honda Showroom, Gayatri Aashram, Ajmer Road, Bhilwara,	visit date Anoop Singh & Deepak Jain, 8905994247 & 9773358234, auctions@aub ank.in visit date : 13-Sep-24	Guarantors/Mortgagers A/c No.: L9001060722830524 Laxman Lal Jat S/O Hajari Jat (Borrower), Ratan Lal Jat S/O Laxman Lal Jat (Co- Borrower)	Notice 17-May-22 Rs. 751268/- Rs. Seven Lac Fifty- One Thousand Two Hundred Sixty-Eight only As on 16-May- 22	20- Mar-23	Property Sitauted At Patta. No. 62, Sankap .No. 5, Sisodiyo Ka Sanwta Chittorgarh Rajasthan Admeasuring 1759.56 sq.ft	Rs. 480000/- Rs. Four Lakh Eighty Thousand Only.	Rs. 48000/- Rs. Forty Eight Thousan d Only.	19-Sep- 24 2.00 PM to 4.00 PM with unlimited extension of 5 minutes	On or Before 17-Sep- 24	Au Small Finance Bank Ltd., Branch Address : 1st Floor, Opp. Upbhokta Bhawan, Kumbha Nagar, Dist.Chittorgarh, Rajasthan- 312001	visit data Anoop Singr Deepak Jain 8905994247 977335823 auctions@a ank.in visit date 13-Sep-24
A/c No.: 19001060100039901 ASHRAM PRASAD YOGI Borrower), SMT. PUSHPA DEVI W/O ASHRAM PRASAD YOGI (Co- Borrower & Mortgagor) Guarantor: KAMLESH	03-Jun-19 Rs. 626411/- Rs. Six Lac Twenty Six Thousand Four Hundred Eleven only As on 01-Jun- 19	22- Dec-21	Property At PATTA NO. 12, MISAL NO. 44, SANKALP NO. 72/5-6-2005, AT JOGIYOKI DHANI, GRAM PANCHAYAT DANGARWARA, TH. JAMWARAMGARH, JAIPUR, RAJASTHAN	Rs. 1160000/- Rs. Eleven Lakh Sixty Thousand Only.	Rs. 116000/- Rs. One Lakh Sixteen Thousan d Only.	11-Sep- 24 2.00 PM to 4.00 PM with unlimited extension of 5 minutes	On or Before 09-Sep- 24	Rajasthan- 311001 Au Small Finance Bank Ltd., Branch Address : Office No.402 405, 4Th Floor Electronic Market, 10 B Scheme, Electronic Market,	Anoop Singh & Deepak Jain, 8905994247 & 9773358234, auctions@aub ank.in visit date : 06-Sep-24	A/c No.: L9001060118354902 Praveen Kumar Suar S/O Narayan (Borrower)	13-Jun-22 Rs. 671282/- Rs. Six Lac Seventy- One Thousand Two Hundred Eighty-Two Only As on 10-Jun- 22	21- Dec-23	Property Situated At BOOK .NO. 51, PATTA .NO. 5022, SANKALP .NO. 06, MISAL .NO. 218, GRAM- PANCHAYAT JHADOLI, TEHSIL- PINDWARA, DIST- SIROHI, RAJASTHAN Admeasuring 186.66 Sqyds	Rs. 770000/- Rs. Seven Lakh Seventy Thousand Only.	Rs. 77000/- Rs. Seventy Seven Thousan d Only.	19-Sep- 24 2.00 PM to 4.00 PM with unlimited extension of 5 minutes	On or Before 17-Sep- 24	AU Small Finance Bank Ltd., Branch Address : - KP Complex Opp Sanjivani Hospital Sirohi Rajasthan.30700 1	Amit Vyas & Deepak Jair 9116190722 977335823 auctions@at ank.in visit date 13-Sep-24
YOGI S/O NATHURAM YOGI 	24-May-21 Rs. 571042/- Rs. Five Lac Seventy One Thousand Forty Two only As on 20- May-21	10- Dec-21	303109 Admeasuring 200 Sq. Yds Patta No.01, Gram Chowkri Khurd, Gram Panchayat Siyara, Panchayat Samiti Peepad Sahar, Distt. Jodhpur Raj Admeasuring 225	Rs. 320000/- Rs. Three Lakh Twenty Thousand Only.	Rs. 32000/- Rs. Thirty Two Thousan d Only.	11-Sep- 24 2.00 PM to 4.00 PM with unlimited extension	On or Before 09-Sep- 24	Gopalpura By Pass, Jaipur Rajasthan 302018 Au Small Finance Bank Ltd., Branch Address - Ambedkar Circle, Near Ambedkar Cricle, Pipar City Dist. Jodhpur	Amit Vyas & Deepak Jain, 9116190722 & 9773358234, auctions@auk. ank.in visit date :	A/c No.: L9001060119901523 Shahil Jwellers (Borrower), Shekh Mejuddin S/O Shekh Abdul Hakim (Co- Borrower), Smt.Salma Begum W/O Sharafat Midde (Co-Borrower)	15-Dec-22 Rs. 251244/- Rs. Two Lac Fifty- One Thousand Two Hundred Forty-Four Only As on 13-Dec - 22	30- Dec-23	Property Stuated at Shop No. 04 At G.F. In G+2 Katla, Chouthmata Bazar, Brijrapura, Lakharapada, Kota, Dist Kota, (Raj)- 324006 Admeasuring 5.33 Sqyds	Rs. 326000/- Rs. Three Lakh Twenty Six Thousand Only.	Rs. 32600/- Rs. Thirty Two Thousan d Six Hundred Only.	11-Sep- 24 2.00 PM to 4.00 PM with unlimited extension of 5 minutes	On or Before 09-Sep- 24	Au Small Finance Bank Ltd., Branch Address : -3Rd Floor, Plot No 385, Shooping Center, Godewala Circle, Dist.Kota, Rajasthan - 324006	Anoop Singh Deepak Jair 8905994247 977335823 auctions@ar ank.in visit date 06-Sep-24
A/c No.: 19001070218406295 Suresh Chandra S/O Choga Lai Kharoi (Borrower & Mortgagor), Smt. Santosh Bai Kharol W/O Suresh Chandra (Co-Borrower), Kailash Kharol S/O Choga Lai Kharol (Co-Borrower)	31-May-21 Rs. 807496/- Rs. Eight Lac Seven Thousand Four Hundred Ninety-Six only As on 29-May- 21	28- Mar-23	SQ. YARD Patta No-32, Book No. 02, Araji No. 1593, VIIITana, Teh Bopal Sagar, Distt Chittorgarh, Rajasthan. Admeasuring 1082.75 Sq. Pt	Rs. 445000/- Rs. Four Lakh Forty Five Thousand Only.	Rs. 44500/- Rs. Forty Four Thousan d Five Hundred Only.	of 5 minutes 19-Sep- 24 2.00 PM to 4.00 PM with unlimited extension of 5 minutes	On or Before 17-Sep- 24	342601 Rajasthan Au Small Finance Bank Ltd., Branch Address : 1st Floor, Opp. Upbhokta Bhawan, Kumbha Nagar, Dist.Chittorgarh, Rajasthan- 312001	06-Sep-24 Anoop Singh & Deepak Jain, 8905994247 & 9773358234, auctions@auk.in visit date : 13-Sep-24	A/c No.: L90010601147115691 Shankar Lai Khatik S/O Sohan Lai Khatik (Borrower)	12-Jan-23 Rs. 342030/- Rs. Three Lac Forty- Two Thousand Thirty Only As on 10-Jan-23	12-Jul- 24	Property Situated At Patta no. 41, Book no. 680, Gram Khatik ka kheda, Gram Panchayat Laiswah, Te Bhilwara, Nist Bhilwara, Rajasthan Admeasuring 1349 SQ. FT.	Rs. 690000/- Rs. Six Lakh Ninety Thousand Only.	Rs. 69000/- Rs. Sixty Nine Thousan d Only.	26-Sep- 24 2.00 PM to 4.00 PM with unlimited extension of 5 minutes	On or Before 24-Sep- 24	Au Small Finance Bank Ltd., Branch Address : -3Rd Floor Shree Sudharshan Complex, Near Chand Honda Showroom, Gayatri Aashram, Ajmer Road, Bhilwara, Rajasthan- 311001	Anoop Singh Deepak Jaii 8905994247 977335823 auctions@aa ank.in visit date 20-Sep-24
A/c No.: .9001060115473940 FEJMAL RAO S/o/W/o/Do RAMRATAN RAO (Borrower), SITA DEVI (Co- Borrower), BHAIRU LAL S/o/W/o/Do RAM RATAN (Co-Borrower)	10-Jul-21 Rs. 661023/- Rs. Six Lac Sixty-One Thousand Twenty- Three only As on 07- Jul-21	23- May-24	Property situated at Patta No 8, SANKALP NO 4, GRAM ADARSH NAGAR, GRAM PANCHAYAT - TASWARIYA PANCHAYAT SAMITI -HURDA -DIST- BHILAWARA .RAJASTHAN Admeasuring 4350 Square Feet	Rs. 710000/- Rs. Seven Lakh Ten Thousand Only.	Rs. 71000/- Rs. Seventy One Thousan d Only.	25-Sep- 24 2.00 PM to 4.00 PM with unlimited extension of 5 minutes	On or Before 23-Sep- 24	Au Small Finance Bank Ltd., Branch Address : -3Rd Floor Shree Sudharshan Complex, Near Chand Honda Showroom, Gayatri Aashram, Ajmer Road, Bhilwara, Rajasthan- 311001	Amit Vyas & Deepak Jain, 9116190722 & 9773358234, auctions@aub ank.in visit date : 20-Sep-24	A/c No.: L9001060817672828 VANSHIKA FASHION THROUGH ITS PROPRIETOR AJAY SINGH (Borrower), AJAY SINGH S/O SUMER SINGH (Co- Borrower), SMT. MALA SINGH W/O AJAY SINGH (Co-Borrower)	14-Mar-23 Rs. 287906/- Rs. Two Lakh Eighty- Seven Thousand Nine Hundred Six Only As on 13-Mar- 23	16-Feb- 24	Property Situated At Plot. No. 73-A Narwarpuri Colony, Chokri Hawali Shehar, Purana Ramgarh Mod, Amer Road, Dist Jaipur Rajasthan Admeasuring 66.66 Square Yard	Rs. 192000/- Rs. Nineteen Lakh Twenty Thousand Only.	Rs. One Lakh Ninety Two	11-Sep- 24 2.00 PM to 4.00 PM with unlimited extension of 5 minutes	On or Before 09-Sep- 24	Au Small Finance Bank Ltd., Branch Address : -Office No.402-405, 4Th Floor Electronic Market, 10-B Scheme, Gopalpura By Pass, Jaipur - Electronic Market-Msme Rajasthan - 302018	Deepak Jair
4/c No.: 9001060118345623 Sanjay Kumar S/o/W/o/Do JALE SINGH (Borrower)	13-Jul-21 Rs. 521311/- Rs. Five Lac Twenty- One Thousand Three Hundred Eleven only As on 07-Jul-21	10-Jul- 24	PATTA NO 24, SANKALP NO-1, VILLAGE- DHAKI, GRAM AND POST- VIRAMPUR, TEH TIJARA, DISTT ALWAR, RAJASTHAN. Admeasuring 1478.31 Square Feet	Rs. 650000/- Rs. Six Lakh Fifty Thousand Only.	Rs. 65000/- Rs. Sixty Five Thousan d Only.	25-Sep- 24 2.00 PM to 4.00 PM with unlimited extension of 5 minutes	On or Before 23-Sep- 24	Au Small Finance Bank Ltd., Branch Address : -Khasra No. 2150, 2151, 2152, 201 Raghu Marg, Lakhanda Wala Kua, Raj Villa, Opposite Govt. Children Hospital,	Anoop Singh & Deepak Jain, 8905994247 & 9773358234, auctions@aub ank.in visit date : 20-Sep-24	A/c No.: L9001060119886265 Kishan Murari Soni S/O Pawan Kumar Soni (Borrower), Yogesh S/O Pavan Singh Soni (Co- Borrower)	14-Jul-23 Rs. 477300/- Rs. Four Lac Seventy-Seven Thousand Three Hundred Only As on 11-Jul-23	06-Jul- 24	Property Situated At Ward No 4, Mohalia Purohitan Bass,, TEHSIL - Bidasar, DIST - Churu, Rajasthan Admeasuring 223.33Sqyds	Rs. 1610000/- Rs. Sixteen Lakh Ten Thousand Only.	Rs. 161000/- Rs. One Lakh Sixty One Thousan d Only.	26-Sep- 24 2.00 PM to 4.00 PM with unlimited extension of 5 minutes	On or Before 24-Sep- 24	Au Small Finance Bank Ltd., Branch Address : - 1St Floor Near Natraj Hotel, Purani Sadak, Dist - Churu, Rajasthan - 331001	Amit Vyas & Deepak Jaii 9116190722 977335823 auctions@ai ank.in visit date 20-Sep-24
A/c No.: 19001060722585467 LAXMANGURJAR S/O LAGDISH (Borrower), AGDISH GURJAR S/O GOKAL (Co-Borrower), KAMALA DEVI S/O(W/O/D/O MANGU	16-Aug-21 Rs. 622935/- Rs. Six Lac Twenty- Two Thousand Nine Hundred Thirty-Five only As on 16-Aug- 21	30- Aug-22	146 sankap no 5 Gram Deonagar -	Rs. 485000/- Rs. Four Lakh Eighty Five Thousand Only.	Rs. 48500/- Rs. Forty Eight Thousan d Five Hundred Only.	19-Sep- 24 2.00 PM to 4.00 PM with unlimited extension of 5	On or Before 17-Sep- 24	Dist.Alwar- 301001 Rajasthan Au Small Finance Bank Ltd., Branch Address : - Opp. Madhav Dwar, Adarsh Nagar, Nasirabad Road, Dist.Ajmer - 305001	Amit Vyas & Deepak Jain, 9116190722 & 9773358234, auctions@aub ank.in visit date : 13-Sep-24	A/c No.: L9001060120045947 & L9001061124301297 Babulal Luhar S/O Lal Chand (Borrower), Smt.Suman Kanwar W/O Laxman Ram Luhar (Co- Borrower) Guarantor: Bhagirath Ji S/O Luna Ram	11-Aug-23 Rs. 598068/- Rs. Six Lac Ninety- Eight Thousand Sixty-Eight Only & Rs. 145363/- Rs. One Lac Forty- Five Thousand Three Hundred Sixty-Three Only As on 10-Aug- 23	24-Jul- 24	Property Situated At Patta No. 60, Village- UTAMADESAR TEHSIL NIKHA, DIST- BIKANER, RAJASTHAN Admeasuring 605.89 Sqyds	Rs. 1060000/- Rs. Ten Lakh Sixty Thousand Only.	Rs. 106000/- Rs. One Lakh Six Thousan d Only.	26-Sep- 24 2.00 PM to 4.00 PM with unlimited extension of 5 minutes	On or Before 24-Sep- 24	Au Small Finance Bank Ltd., Branch Address :- Patta No. 443, Misal No. 24, Opposite Government Hospital, Sri Kolayat-Dist. Bikaner Rajasthan 334302	Amit Vyas & Deepak Jaii 9116190722 977335823 auctions@a ank.in visit date 20-Sep-24
(Co-Borrower) A/c No.: L9001060121581897 Majisha Sarre Centar (Borrower), Bhavesh S/O Ratanial (Co-Borrower), Manju Devi Lalan W/O/D/O/S/O Nemi Chnad Shrimal (Co-Borrower)	13-Oct-21 Rs. 800917/- Rs. Eight Lac Nine Hundred Seventeen only As on 13-Oct- 21	06- Dec-22	Sqyds Property situated at Gram Panchayat Patta No. 01, Gram Panchayat Bhadkha, Distt. Barmer, Rajasthan Admeasuring 3200 Sq. Ft.	Rs. 455000/- Rs. Four Lakh Fifty Five Thousand Only.	Rs. 45500/- Rs. Forty Five Thousan d Five Hundred Only.	minutes 11-Sep- 24 2.00 PM to 4.00 PM with unlimited extension of 5 minutes	On or Before 09-Sep- 24	Rajasthan Au Small Finance Bank Ltd., Branch Address : 1St Floor, Sethiya Complex, Near Hotel Kailash International, Nh15 Dist.Barmer -	Amit Vyas & Deepak Jain, 9116190722 & 9773358234, auctions@aub ank.in visit date : 06-Sep-24	A/c No.: 19001060717041455 Smt. Neeru Sukhija W/O Hemant Sukhija (Borrower), Hemant Sukhija S/O Prem Prakash Sukhija (Co-Borrower)	04-Sep-23 Rs. 3413660/- Rs. Thirty-Four Lac Thirteen Thousand Six Hundred Sixty Only As on 02-Sep- 23	03-Jul- 24	Property Situated at- Shop No.39 & 40 First Floor (Withoutroof) Manak Bhawan Complex, Gumanpura, dist- Kota, Rajasthan Admesuring 322.50 Sq.ft.	Rs. 3100000/- Rs. Thirty One Lakh Only.	Rs. 310000/- Rs. Three Lakh Ten Thousan d Only.	to 4.00 PM with unlimited extension of 5 minutes	On or Before 23-Sep- 24	Au Small Finance Bank Ltd., Branch Address : -3Rd Floor, Plot No 385, Shooping Center, Godewala Circle, Dist.Kota, Rajasthan - 324006	Anoop Singh Deepak Jair 8905994247 977335823 auctions@a ank.in visit date 20-Sep-24
A/c No.: 9001060123743642 Swami Motors Through imt. Sapna Choudhary & Mr. Sheetal Choudhary - .egal Heir Of its Partner .ate Shri Radheshyam Choudhary (Borrower), sheetal Chaudhary S/O .ate Shri Radheshyam Chaudhary (Co-Borrower &	15-Mar-22 Rs. 4777253/- Rs. Forty-Seven Lac Seventy-Seven Thousand Two Hundred Fifty-Three only As on 15-Mar- 22	10-Jul- 24	Property Situated At Gram Panchayat Naiya Badi Aspatal Ke Pass, dalot, Tehsil- Arnod, dist- Chittorgarh, Rajasthan Admeasuring 331.33 Sqyds	Rs. 6710000/- Rs. Sixty Seven Lakh Ten Thousand Only.	Rs. 671000/- Rs. Six Lakh Seventy One Thousan d Only.	26-Sep- 24 2.00 PM to 4.00 PM with unlimited extension of 5 minutes	On or Before 24-Sep- 24	344001 Rajasthan Au Small Finance Bank Ltd, Branch Office:- Adi Mata Complex Upbhogta Bhandar Ke Samne Khumbha Nagar Chittorgarh, Rajasthan.	Anoop Singh & Deepak Jain, 8905994247 & 9773358234, auctions@aub ank.in visit date : 20-Sep-24	A/c No.: L9001070822017311 Girdhari (Borrower), Pappu Singh (Co- Borrower), Laxmikant (Co- Borrower)	14-Sep-23 Rs. 815320/- Rs. Eight Lac Fifteen Thousand Three Hundred Twenty Only As on 12-Sep- 23	11-Jul- 24	Property is situated at Patta No 26, Village Tapukara, Gram Panchayat Tapukara, Panchayat Samiti Tijara, Distt Alwar, RAJASTHAN Admeasuring 2519 Sqft	Rs. 4200000/- Rs. Forty Two Lakh Only.	Rs. 420000/- Rs. Four Lakh Twenty Thousan d Only.	25-Sep- 24 2.00 PM to 4.00 PM with unlimited extension of 5 minutes	On or Before 23-Sep- 24	Au Small Finance Bank Ltd., Branch Address : -Khasra No. 2150, 2151, 2152, 201 Raghu Marg, Lakhanda Wala Kua, Raj Villa, Opposite Govt. Children Hospital, Dist.Alwar- 301001 Rajasthan	Deepak Jair
Legal Heir of Late Shri Radheshyam Chaudhary - Co-Borrower), Sapna Choudhary D/O Late Shri Radheshyam Chaudhary (Co-Borrower & Legal Heir of Late Shri Radheshyam Chaudhary - Co-Borrower)	07 May 22	29 Jul	Departure City Interd At	Br	Br	11 500	01.01	Au Small Finance	Anoon Singh 9	A/c No.: L9001060120510951 Rudhra Hair Studio (Borrower), Devendra Kumar Nai (Co-Borrower), Smt.Bharti Devi Bhatiya (Co-Borrower) Guarantor: Narendra Chimanial Barber	13-Oct-23 Rs. 413044/- Rs. Four Lac Thirteen Thousand Forty-Four Only As on 10-Oct-23	16-Jul- 24	PROPERTY SITUATED AT- Patta No- 049, Book No- 230, Khasra No- 1210, Village- Bhiluda, Ps- Sagwara, Dist- Dungarpur, Rajasthan Admocauelar	Rs. 1090000/- Rs. Ten Lakh Ninety Thousand Only.	Rs. 109000/- Rs. One Lakh Nine Thousan d Only.	25-Sep- 24 2.00 PM to 4.00 PM with unlimited extension of 5 minutes	On or Before 23-Sep- 24	Au Small Finance Bank Ltd., Branch Address : Shop- No 3 & 4, Near New Bus stand, Dungarpur, Sagwara Road, Opp. Au Small Einence Back	Amit Vyas 8 Deepak Jair 9116190722 977335823 auctions@ar ank.in visit date 20-Sep-24
V/c No.: 19001060117929171 Mahesh Kumar S/O Vanchi Lal Yadav Borrower), Dinesh Yadav (O Mahesh Kumar Yadav Co-Borrower)	07-May-22 Rs. 631486/- Rs. Six Lac Thirty- One Thousand Four Hundred Eighty-Six Only As on 06-May- 22	28-Jul- 23	Property Situated At PATTA NO 44, SANKALP NO 07, Gram -Brijnathpura, TEHSIL-Chaksu, DIST- Jaipur, Rajasthan Admeasuring 283.33 Sqyds	Rs. 700000/- Rs. Seven Lakh Only.	Rs. 70000/- Rs. Seventy Thousan d Only.	11-Sep- 24 2.00 PM to 4.00 PM with unlimited extension of 5 minutes		Deals Lad Dramak			12-Jul-22 Rs. 840342/- Rs. Eight Lac Forty Thousand Three Hundred Forty-Two Only As on 12-Jul-22	11-Jul- 24	Admeasuring 1473.56 Sq.Ft Property Sitauted At Patta No 45, Book No. 168, Sankalp No. 7, Maliyon Ka Was, Gp Madariya, Te Deogarh, Dist Rajsamand, Rajasthan Admeasuring 2581.7 SQ. FT.	Rs. 1100000/- Rs. Eleven Lakh Only.	Rs. One		On or Before 24-Sep- 24	Finance Bank - 314001 Au Small Finance Bank Ltd., Branch Address - Girdhar Complex 100 Fit Tiraha, Above Indusind Bank, Nathdwara Road, Kankroli, Distt - Rajsamand Rajasthan	Deepak Jair 8905994247

Please Note: - This is also a 15/30 days notice Under Rule 8(6) read with Rule 9(1) to the Borrowers/Mortgagors of the above said loan account about sale through tender / inter se bidding on the above-mentioned date. The property will be sold, if their outstanding dues are not repaid in full by the borrower in the given notice period.

	-			
Place : Ra	iasthan	Date	: 13-08	-2024

Authorised Officer AU Small Finance Bank Limited

Jaipur